

प्रपत्र / FORM-3

किसी मकान के निर्माण या उसमें वृद्धि के लिए विहित प्राधिकारी को अनुमति के लिए रिपोर्ट/आवेदन का प्रपत्र
Form of report/application for permission to the prescribed authority for the building of or addition to a house

प्रेषक / From

दिनांक/Date:

सेवा में / To

महोदय/महोदया/Sir/Madam,

* आपको सूचित किया जाता है कि मैं मकान के निर्माण/अपने मकान में कुछ और वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ।
This is to report to you that I propose to build a house/to make an addition to my house.

* यह अनुरोध किया जाता है कि मुझे मकान के निर्माण/मकान में वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान की जाए।
This is to request that permission may be granted to me for the building of a house/the addition to the house.

निर्माण/विस्तार के लिए भूमि और सामग्री की अनुमानित लागत नीचे दी गई है: / The estimated cost of the land and material for the construction/extension is given below:

भूमि / Land

(1) लोकेशन / Location:

सर्वे नंबर/ Survey number :

गांव / Village :

जिला / District :

राज्य / State :

(2) एरिया / Area :

(3) लागत / Cost :

	भवन निर्माण सामग्री आदि / Building materials etc.	रेट/ Rate	मात्रा/ Quantity	लागत/ Cost (रुपए/ Rs.)
(1)	ब्रिक्स / Bricks			
(2)	सीमेंट / Cement			
(3)	आयरन एवं स्टील / Iron and Steel			
(4)	टिम्बर / Timber			
(5)	सेनेटरी फिटिंग / Sanitary Fittings			
(6)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग / Electrical Fittings			
(7)	कोई अन्य विशिष्ट फिटिंग / Any other Special Fittings			
(8)	लेबर प्रभार / Labour Charges			
(9)	अन्य प्रभार, यदि कोई हो / Other Charges, if any			

*2. निर्माण की निगरानी में खुद करूंगा / निर्माण द्वारा किया जाएगा / The construction will be supervised by myself / The Construction will be done by **

.....
.....
.....

* मेरी ठेकेदार के साथ कोई आधिकारिक डीलिंग नहीं है और न ही पूर्व में मेरी उसके साथ कोई आधिकारिक डीलिंग थी। / I do not have any official dealings with the contractor nor did I have any official dealings with him in the past.

* मेरी ठेकेदार के साथ आधिकारिक डीलिंग है/थी और उसके साथ मेरी डीलिंग की प्रकृति निम्नानुसार है/थी / I have/had official dealings with the contractor and the nature of my dealing with him is/was as under:

3. प्रस्तावित निर्माण की लागत निम्नानुसार होगी / The cost of the proposed construction will be as under:

विवरण		राशि / Amount (रुपए / Rs.)
(i)	स्वयं की बचत / Own savings	
(ii)	ऋण/अग्रिम का पूरा विवरण / Loans/Advances with full details	
(iii)	अन्य स्रोतों का विवरण / Other sources with details	

भवदीय/भवदीया / Yours faithfully,

नाम / Name :

पदनाम / Designation :

अनुभाग / Section :

मोबाइल नंबर / Mob. No. :

यूआईडी नंबर / UID No. :

जन्म तिथि / DOB :

* लागू न होने वाले भाग काट दें / Strike out the portions not applicable

** ठेकेदार का नाम और व्यवसाय का स्थान दर्ज करें / Enter the name and place of business of the contractor.